

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 410]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 सितम्बर 2014—भाद्र 15, शक 1936

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014

शुद्धिपत्र

अधिसूचना क्र. F 5-59-2014-I-LV.—द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, क्रमांक 389, दिनांक 30 अगस्त, 2014 के पृष्ठ क्रमांक 777 पर त्रुटिवश विभाग का नाम “उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल” प्रकाशित हो गया है, के स्थान पर संशोधित शब्द “चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.